



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 11-सितम्बर 17, 2004 (भाद्रपद 20, 1926)  
No. 37] NEW DELHI SATURDAY, SEPT. 11-SEPTEMBER 17, 2004 (BHADRA 20, 1926)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा मन्त्रियों से संबंधित अधिसूचनाएं .. .. .	781	भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड—(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .. .. .	965
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं .. .. .	965	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश .. .. .	3
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं .. .. .	3	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निबंधक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और प्रमुख सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .. .. .	4253
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .. .. .	4253	भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और विज्ञापनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस .. .. .	867
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .. .. .	—	भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अबका द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .. .. .	6821
भाग II—खण्ड 2—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .. .. .	—	भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निष्ठाओं द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .. .. .	3825
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रस्ताव समितियों के विन तथा रिपोर्ट .. .. .	—	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस .. .. .	955
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .. .. .	—	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्ज करने वाला सम्बन्ध .. .. .	—
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .. .. .	—		

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

## CONTENTS

	Page
<b>PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court</b>	781
<b>PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court</b>	965
<b>PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence</b>	3
<b>PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence</b>	1253
<b>PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations</b>	—
<b>PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations</b>	—
<b>PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills</b>	—
<b>PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)</b>	—
<b>PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)</b>	—
<b>PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules &amp; Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)</b>	—
<b>PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence</b>	—
<b>PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.</b>	867
<b>PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs</b>	6821
<b>PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners</b>	—
<b>PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies</b>	3825
<b>PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies</b>	255
<b>PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi</b>	—

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधित्तर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

(प्राक्कलन समिति शाखा)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 अगस्त 2004

प्राक्कलन समिति (2004-2005) के सदस्य

सं० 4/2/ईसी/2004—लोक सभा के निम्नलिखित सदस्यों को 30 अप्रैल, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया है :—

1. श्री ए० साई प्रताप
2. श्री बी० विनोद कुमार
3. श्री चन्द्र कुमार
4. श्री लाल मुनी चौबे
5. श्री अघीर रंजन चौधरी
6. श्री अनन्त गुढे
7. श्री जय प्रकाश
8. श्री एन० एन० कृष्णदास
9. श्री सी० कुप्पुसामी
10. श्री समिक लाहिरी
11. श्री भतृहरि महताब
12. श्री सुनील कुमार महताब
13. श्री सनत कुमार मंडल
14. श्री जोरा सिंह मान
15. श्री प्रबोध पांडा
16. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद
17. श्री सुखदेव पासवान
18. श्री अन्नासाहेब एम० के० पाटील
19. श्री हरिकेवल प्रसाद
20. श्री एम० रामदास
21. श्री के० एस० राव
22. श्री इकबाल अहमद सरडगी
23. श्री ज्योतिरादित्य मधवराव सिधिया
24. श्री मानवेन्द्र शाह
25. श्री लक्ष्मण सिंह
26. श्री सरताज सिंह
27. श्री एम० ए० खाखरे स्वर्दी

28. श्री अखिलेश यादव

29. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव

30. श्री विजय कृष्ण

अध्यक्ष ने श्री सी० कुप्पुसामी, संसद सदस्य को प्राक्कलन समिति (2004-2005) के सभापति के रूप में नियुक्त किया है।

ए० के० सिंह

प्रधान मुख्य संसदीय भाषांतरकार

(सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 अगस्त 2004

सं० 4(2)-पीयू/2004—लोक सभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को 30 अप्रैल, 2005 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सदस्य विधिवत निर्वाचित किया गया है :—

लोक सभा के सदस्य

1. श्री मनोरंजन भक्त
2. श्री गुरुदास दासगुप्त
3. श्री पी० एस० गढ़वी
4. श्री सुरेश कलमाडी
5. डॉ० वल्लभभाई कधीरिया
6. श्रीमती परमजीत कौर
7. श्री सुशील कुमार मोदी
8. श्री रूपचन्द पाल
9. श्री काशीराम राणा
10. श्री मोहन रावले
11. श्री राजीव रंजन सिंह
12. श्री व.गुन सुम्बरुई
13. श्री राजेश बर्मा
14. श्री पारसन थ यादव
15. श्री रामकृपाल यादव

## राज्य सभा के सदस्य

16. प्रो० रामदेव भंडारी
17. श्री अजय मारु
18. श्री व्यतीमोहन महापात्र
19. श्री जीवन राय
20. श्री शर्हिद सिद्दीकी
21. श्रीमती अम्बिका सोनी
22. श्री दिनेश त्रिवेदी

माननीय अध्यक्ष ने श्री रूपचन्द पाल को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2004-2005) का सभापति नियुक्त किया है।

एस० बालशेखर, निदेशक

दिनांक 26 जुलाई 2004

सं० एफ० 9-11/2004-यू० 3—इस मंत्रालय के दिनांक 31 मार्च 2004 की अधिसूचना संख्या एफ० 9-5-2002-यू० 3 के क्रम में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्वारा घोषणा करती है कि मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, ईनाथुर, चैन्नई को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से मीनाक्षी उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी (सम-विश्वविद्यालय), चैन्नई के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

सुनील कुमार, संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 2004

सं० एफ 9-11/2000-यू-3—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह से प्रवर चिकित्सा विज्ञान संस्थान लोनी, अहमद नगर, महाराष्ट्र को सम विश्वविद्यालय घोषित करने संबंधी इस मंत्रालय की दिनांक 29-9-2003 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रवर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लोनी (सम विश्वविद्यालय) में निम्नलिखित संस्थान शामिल हैं।

- (क) ग्रामीण चिकित्सा कालेज, लोनी
- (क) ग्रामीण दन्त कालेज, लोनी
- (ग) भौतिक चिकित्सा कालेज, लोनी और
- (घ) नर्सिंग कालेज, लोनी

सुनील कुमार, संयुक्त सचिव

दिनांक 29 जुलाई 2004

सं० एफ० 9-25/2000-यू० 3—दिनांक 13-1-2003, 05-02-2003, 08-08-2003 और 29-08-2004 की समसंख्यक अधिसूचनाओं के क्रम में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्वारा घोषणा करती है कि अमृता दंत चिकित्सा महाविद्यालय, कोचीन को अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयम्बटूर, जो सम-विश्वविद्यालय है, के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 12 जनवरी, 2008 के पश्चात् समीक्षा की शर्त के अधीन तत्काल प्रभाव से शामिल किया जाता है।

सुनील कुमार, संयुक्त सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT  
(ESTIMATES COMMITTEE BRANCH)  
New Delhi-110001, the 27th August 2004  
Members of the Committee on Estimates  
(2004-2005)

No. 4/2/EC/2004—The following Members of Lok Sabha have been declared as duly elected to serve on the Committee on Estimates for the term ending on 30th April, 2005.

1. Shri A. Sai Prathap
2. Shri B. Vinod Kumar
3. Shri Chander Kumar

4. Shri Lalmuni Chabbay
5. Shri Adhir Ranjan Chowdhury
6. Shri Anant Gudhe
7. Shri Jai Prakash
8. Shri N. N. Krishnadas
9. Shri C. Kuppasami
10. Shri Samik Lahiri
11. Shri Bhartruhari Mahatab
12. Shri Sunil Kumar Mahato
13. Shri Sanat Kumar Mandal
14. Shri Zora Singh Mann
15. Shri Prabodh Panda
16. Shri Mahendra Prasad Mahad
17. Shri Sukhdeo Paswan

18. Shri Annasaheb M. K. Patil
19. Shri Harikewal Prasad
20. Prof. M. Ramadass
21. Shri K. S. Rao
22. Shri Iqbal Ahmed Saradgi
23. Shri Jyotiraditya Madhavrao Scindia
24. Shri Manabendra Shah
25. Shri Laxman Singh
26. Shri Sartaj Singh
27. Shri M.A. Kharabela Swain
28. Shri Akhilesh Yadav
29. Shri V. Kishore Chandra Deo
30. Shri Vijay Krishan

The Speaker has appointed Shri C. Kuppusami, M. P. as the Chairman of the Committee on Estimates (2004-2005).

A. K. SINGH

Principal Chief Parliamentary Interpreter

#### (P.U. BRANCH)

New Delhi-110001, the 27th August 2004

No. 4(2)-PU/2004—The following members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been duly elected to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term ending on 30 April, 2005 :—

#### MEMBERS OF LOK SABHA

1. Shri Manoranjan Bhakta
2. Shri Gurudas Dasgupta
3. Shri P. S. Gadhave
4. Shri Suresh Kalmadi
5. Dr. Vallabhabhai Kathiria
6. Smt. Preneet Kaur
7. Shri Sushil Kumar Modi
8. Shri Rupchand Pal
9. Shri Kashiram Rana
10. Shri Mohan Rawale
11. Shri Rajiv Ranjan Singh
12. Shri Bagun Sumbrui
13. Shri Rajesh Verma
14. Shri Parasnath Yadav
15. Shri Ram Kripal Yadav

#### MEMBERS OF RAJYA SABHA

16. Prof. Ram Deo Bhandary
17. Shri Ajay Maroo
18. Shri Pyarimohan Mohapatra
19. Shri Jibon Roy

20. Shri Shahid Siddiqui
21. Smt. Ambika Soni
22. Shri Dinesh Trivedi

The Hon'ble Speaker has been pleased to appoint Shri Rupchand Pal as Chairman of the Committee (2004-2005).

S. BAL SHEKAR  
Director

#### MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

#### (DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 22nd July 2004

No. F.9-11/2000-U.3—In continuation of this Ministry's notification of even number dated 29-9-2003 declaring the Pravara Institute of Medical Sciences, Loni, Dist. Ahmednagar, Maharashtra as Deemed to be University in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, it is hereby clarified that the Pravara Institute of Medical Sciences, Loni, (Deemed University) comprises the following four institutes :—

- (a) Rural Medical College, Loni;
- (b) Rural Dental College, Loni;
- (c) College of Physiotherapy, Loni; and
- (d) College of Nursing, Loni.

SUNIL KUMAR  
Jt. Secy.

The 26th July, 2004

No. F. 9-11/2004-U. 3—In continuation of this Ministry's Notification No. F. 9-5/2002-U. 3 dated 31st March, 2004 and in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission hereby declare that Meenakshi Medical College and Research Institute, Enathur, Chennai is included under the ambit of Meenakshi Academy of Higher Education and Research (Deemed University), Chennai for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect.

SUNIL KUMAR  
Jt. Secy.

The 29th July 2004

No. F. 9-25/2000-U. 3—In continuation of notifications of even number dated 13-1-2003, 5-2-2003, 8-8-2003 & 29-6-2004 and in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission hereby declare that the Amrita College of Dentistry,

Cochin is included under the ambit of Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, a Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect subject to a review after 12th January 2008.

SUNIL KUMAR

Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,  
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004